

भाग –III**हरियाणा सरकार**

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 फरवरी, 2019

संख्या सांका०नि० 10/संवि०/अनु० 309/2019 – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा लोक निर्माण विभाग, भवन तथा सड़कें शाखा, जूनियर इंजीनियर (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1998 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- ये नियम हरियाणा लोक निर्माण विभाग, भवन तथा सड़कें शाखा, जूनियर इंजीनियर (ग्रुप-ग) सेवा संशोधन नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।
- हरियाणा लोक निर्माण विभाग, भवन तथा सड़कें शाखा, जूनियर इंजीनियर (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1998 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त-नियम कहा गया है) में नियम 5 में, “सत्रह वर्ष” तथा “पैंतीस वर्ष” शब्दों के स्थान पर, क्रमशः “अठारह वर्ष” तथा “बयालीस वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
- उक्त नियमों में, नियम 9 में, उप नियम (1) में, –
 - खण्ड (I) में, उप-खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : –
“(i) दस प्रतिशत ग्रुप ग कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा तथा”;
 - खण्ड (II) में, उप-खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : –
“(i) दस प्रतिशत ग्रुप ग कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ; तथा”;
 - खण्ड (III) में, उप-खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : –
“(i) दस प्रतिशत ग्रुप ग कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ; तथा”;
 - खण्ड (IV) में, उप-खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : –
“(i)दस प्रतिशत ग्रुप ग कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ; तथा” ।
- उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

“ परिशिष्ट ख”

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1.	जूनियर इंजीनियर (सिविल)	(i) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा; अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक./ इंजीनियरिंग में स्नातक (सिविल) या इंजीनियर संस्थान से एसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा;	पदोन्नति द्वारा— (i) कर्मचारी जो प्रमाणपत्र कोर्स धारक है, हेतु – ग्रुप ग के पद पर पांच वर्ष का अनुभव जिसने राज्य बोर्ड द्वारा संचालित नियमित आधार पर तीन वर्षीय राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र (सैद्धान्तिक) कोर्स या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान से समरूप योग्यता अर्हक की हो; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक. / इंजीनियरिंग में स्नातक (सिविल)

		(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिंदी/संस्कृत ।	<p>या इंजीनियर संस्थान से एसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा ;</p> <p>(ii) कर्मचारी जो प्रमाणपत्र कोर्स धारक नहीं हैं, हेतु—</p> <p>(क) मैट्रिक या इसके समकक्ष ;</p> <p>(ख) सड़क निरीक्षक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव या कार्य निरीक्षक, वर्क मिस्त्री, कार्य पर्यवेक्षक या सर्वेक्षक के रूप में बारह वर्ष का अनुभव;</p> <p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा —</p> <p>(i) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा;</p> <p>अथवा</p> <p>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक. / इंजीनियरिंग में स्नातक (सिविल) या इंजीनियर संस्थान से एसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा ; तथा</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिंदी/संस्कृत</p>
2.	जूनियर (इलैक्ट्रिकल) इंजीनियर	<p>(i) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा</p> <p>अथवा</p> <p>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक. / इंजीनियरिंग में स्नातक (इलैक्ट्रिकल) या इंजीनियर संस्थान से एसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा ;</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिंदी/संस्कृत ।</p>	<p>पदोन्नति द्वारा—</p> <p>(i) प्रमाणपत्र कोर्स धारक कर्मचारियों हेतु—</p> <p>ग्रुप ग के पद पर पांच वर्ष का अनुभव जिसने राज्य बोर्ड द्वारा संचालित नियमित आधार पर तीन वर्षीय राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र (सैद्धान्तिक) कोर्स पास किया हो या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान से समरूप योग्यता अर्हक की हो ;</p> <p>या</p> <p>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित मान्यता-प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक. / इंजीनियरिंग में स्नातक (इलैक्ट्रिकल) या इंजीनियर संस्थान से एसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा ; तथा</p> <p>(ii) कर्मचारी जो प्रमाणपत्र कोर्स धारक नहीं हैं, हेतु —</p> <p>(क) मैट्रिक या इसके समकक्ष; तथा</p>

			<p>(ख) सहायक अधीक्षक (वातानुकूलन और प्रशीतन) / फोरमैन (इलैक्ट्रिकल) / सहायक फोरमैन (इलैक्ट्रिकल) / सहायक फोरमैन (वातानुकूलन और प्रशीतन) के रूप में आठ वर्ष का अनुभव;</p> <p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा –</p> <p>(i) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ;</p> <p>अथवा</p> <p>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक. / इंजीनियरिंग में स्नातक (इलैक्ट्रिकल) या इंजीनियर संस्थान से एसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा तथा ;</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिंदी/संस्कृत ।</p>
3.	जूनियर (मकैनिकल) इंजीनियर	<p>(i) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित मकैनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ;</p> <p>अथवा</p> <p>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से मकैनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक. / इंजीनियरिंग में स्नातक (मकैनिकल) या इंजीनियर संस्थान से एसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा; तथा</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिंदी/संस्कृत ।</p>	<p>पदोन्नति द्वारा—</p> <p>(i) प्रमाणपत्र कोर्स धारक कर्मचारियों हेतु –</p> <p>ग्रुप ग के पद पर पांच वर्ष का अनुभव जिसने राज्य बोर्ड द्वारा संचालित नियमित आधार पर तीन वर्षीय राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र (सैद्धान्तिक) कोर्स या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्था से समरूप योग्यता अर्हक की हो;</p> <p>या</p> <p>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से मकैनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक. / इंजीनियरिंग में स्नातक (मकैनिकल) या इंजीनियर संस्थान से एसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा; तथा</p> <p>(ii) कर्मचारी जो प्रमाणपत्र कोर्स धारक नहीं हैं, हेतु—</p> <p>(क) मैट्रिक या इसके समकक्ष तथा;</p> <p>(ख) स्पेशल फोरमैन / फोरमैन हैवी प्लांट / सहायक फोरमैन हैवी प्लांट के रूप में आठ वर्ष का अनुभव ;</p>

			<p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा – राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित मकैनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा; अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से मकैनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक. / इंजीनियरिंग में स्नातक (मकैनिकल) या इंजीनियर संस्थान से ऐसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिंदी/संस्कृत ।</p>
4.	जूनियर (बागवानी)	इंजीनियर	<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि / बागवानी में डिग्री ; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिंदी/संस्कृत ।</p> <p>पदोन्नति द्वारा— (i) डिग्री, धारक कर्मचारियों हेतु – (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि / बागवानी में डिग्री; तथा (ख) किसी ग्रुप ग के पद पर पांच वर्ष का अनुभव; (ii) कर्मचारी जो डिग्री धारक नहीं हैं, हेतु— (क) मैट्रिक या इसके समकक्ष ; तथा (ख) बागवानी पर्यवेक्षक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि बागवानी में डिग्री ; (ii) किसी ग्रुप ग के पद पर पांच वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिंदी/संस्कृत ।</p>

टिप्पण –1: केवल सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या डिग्री या इसके समकक्ष योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार पात्र होंगे ।

टिप्पण –2: सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सेवा ग्रहण करने के उपरान्त प्राप्त की गई किसी उच्चतर योग्यता को किसी सेवा लाभ के लिए विचार नहीं जाएगा ।”

आलोक निगम,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग ।

*[Authorised English Translation]***HARYANA GOVERNMENT****PUBLIC WORKS (BUILDINGS AND ROADS) DEPARTMENT****Notification**

The 12th February, 2019

No. G.S.R.10/Const./Art.309/2019.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Public Works Department, Building and Roads Branch, Junior Engineers (Group-C) Service Rules, 1998 namely:-

1. These rules may be called the Haryana Public Works Department (Buildings and Roads) Branch, Junior Engineers (Group-C) Amendment Service Rules, 2019.
2. In the Haryana Public Works Department, Building and Roads Branch, Junior Engineers (Group-C) Service Rules, 1998, in rule 5, for the figures and words “17 years” and “35 years”, the words and sign “eighteen years” and “forty two years” shall be substituted respectively.
3. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (1),-
 - (i) in clause (I), for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:-
“(i) 10% by promotion from amongst Group C employees; and”;
 - (ii) in clause (II), for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:-
“(i) 10% by promotion from amongst Group C employees; and”;
 - (iii) in clause (III), for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:-
“(i) 10% by promotion from amongst Group C employees; and”;
 - (iv) in clause (IV), for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:-
“(i) 10% by promotion from amongst Group C employees; and”.
4. In the said rules, for “Appendix B”, the following Appendix shall be substituted, namely: -

“APPENDIX B

(see rule 7)

Sr. No	Designation of Post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic Qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1.	Junior Engineer (Civil)	<p>(i) Three years Diploma in Civil Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others Institute recognized by the Government;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>B. Tech. in Civil Engineering/ Bachelor in Engineering (Civil) from any recognized University, approved by the University Grants Commission/ All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers ; and</p> <p>(ii) Hindi / Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.</p>	<p>By promotion-</p> <p>(i) For employee with certificate course</p> <p>Five years experience on the post of Group C who have passed three years National Certificate (Theoretical) course in Civil Engineering conducted by the State Board or has qualified the same from any other recognized Institute on regular basis;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>B. Tech. in Civil Engineering/ Bachelor in Engineering (Civil) from any recognized university, approved by the University Grants Commission and from All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers (India)</p>

			<p>(Associate Member of the Institution of Member of the Institution of Engineering-Civil);</p> <p>(ii) For employees without certificate courses-</p> <p>(a) Matric or its equivalent; and</p> <p>(b) Eight years experience as Road Inspectors or Twelve years experience as Work Inspector, Work Mistries, Work Supervisors, or Surveyors ;</p> <p>By Transfer or deputation-</p> <p>(i) Three years Diploma in Civil Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others Institute recognized by the Government;</p> <p>OR</p> <p>B. Tech. in Civil Engineering/ Bachelor in Engineering (Civil) from any recognized University, approved by the University Grants Commission/ All India Council for Technical Education; and</p> <p>(ii) Hindi / Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.</p>
2.	Junior Engineer (Electrical)	<p>(i) Three years Diploma in Electrical Engineering, conducted by the State Board of Technical Education Department, Haryana or any others Institutions recognized by the Government;</p> <p>OR</p> <p>B. Tech. in Electrical Engineering / Bachelor in Engineering (Electrical) from any recognized University, approved by the University Grants Commission/ Associate Membership Examination of the Institute of Engineers; and</p> <p>(ii) Hindi / Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.</p>	<p>By promotion-</p> <p>(i) For employee with certificate course: -</p> <p>Five years experience on post of Group-C who have passed three years National Certificate (Theoretical) course in Electrical Engineering conducted by the State Board or has qualified the same from any other recognized Institution on regular basis;</p> <p>OR</p> <p>B. Tech. in Electrical Engineering/ Bachelor in Engineering (Electrical) from any recognized university, approved by the University Grants Commission and from All India Council for Technical Education or Associate Membership</p>

			<p>Examination of the Institute of Engineers (Associate Member of the Institution of Member of the Institution of Engineering (Electrical);</p> <p>(i) For employees without certificate courses: -</p> <p>(a) Matric or its equivalent;</p> <p>(b) Eight years experience as Assistant Superintendent (Air Conditioning and Refrigeration) / Foreman (Electrical) / Assistant Foremen (Electrical) / Assistant Foremen (Air Conditioning and Refrigeration);</p> <p>By transfer or deputation-</p> <p>(i) Three years Diploma in Electrical Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others Institutions recognized by the Government;</p> <p>OR</p> <p>B. Tech. in Electrical Engineering/Bachelor in Engineering (Electrical) from any recognized University, approved by the University Grants Commission/ Associate Membership Examination of the Institute of Engineers; and</p> <p>(iii) Hindi / Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.</p>
3.	Junior Engineer (Mechanical)	<p>(i) Three years Diploma in Mechanical Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Department, Haryana or any others Institutions recognized by the Government;</p> <p>OR</p> <p>B. Tech. in Mechanical Engineering / Bachelor in Engineering (Mechanical Engineering) from any recognized University, approved by the University</p>	<p>By promotion-</p> <p>(i) For employee with certificate course: -</p> <p>Five years experience on post of Group-C who have passed three years National Certificate (Theoretical) course in Mechanical Engineering conducted by the State Board or has qualified the same from any other recognized Institution on regular basis;</p> <p>OR</p>

		<p>Grants Commission/ All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers; and</p> <p>(ii) Hindi / Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.</p>	<p>B. Tech. in Mechanical Engineering/Bachelor in Engineering (Mechanical) from any recognized university, approved by the University Grants Commission and from All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers;</p> <p>(ii) For employees without certificate courses -</p> <p>(a) Matric or its equivalent; and</p> <p>(b) Eight years experience as Special Foreman / Foreman Heavy Plant / Assistant Foreman Heavy Plant;</p> <p>By transfer or deputation-</p> <p>(i) Three years Diploma in Mechanical Engineering, conducted by the State Board of Technical Education Department, Haryana or any others Institutions recognized by the Government;</p> <p>OR</p> <p>B. Tech. in Mechanical Engineering/Bachelor in Engineering (Mechanical) from any recognized University, approved by the University Grants Commission/ All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination; and</p> <p>(ii) Hindi / Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.</p>
4.	Junior Engineer (Horticulture)	<p>(i) Degree in Agriculture / Horticulture from a recognized University;</p> <p>(ii) Hindi / Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.</p>	<p>By promotion-</p> <p>(i) For employee with Degree-</p> <p>(a) Degree in Agriculture / Horticulture from a recognized University; and</p> <p>(b) Five years experience on any Group C post;</p> <p>(ii) For employees without certificate courses-</p>

			<p>(a) Matric or its equivalent; and</p> <p>(b) Eight years experience as Horticulture Supervisor;</p> <p>By transfer or deputation-</p> <p>(i) Degree in Agriculture /Horticulture from a recognized university; and</p> <p>(ii) Five years experience on any Group-C post; and</p> <p>(iii) Hindi/ Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.</p>
--	--	--	---

Note 1: Only candidates having Diploma or Degree or its equivalent qualifications as recognized by Government shall be eligible.

Note 2: Any higher qualification obtained after joining the service, without prior permission of the competent authority, shall not be considered for any service benefit.

ALOK NIGAM,
Additional Chief Secretary to Government,
Haryana Public Works (Buildings and Roads) Department.